



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 09.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध पर अंकुश एवं अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध शस्त्र धारक अपराधियों की चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 08.06.2021 को **SHO** पनवाड़ी श्री विजय सिंह द्वारा गठित की गयी टीम जिसमें 30नि0 तनवीर अहमद मय हमराह कर्मियों ने अभियान में शामिल होकर अभियुक्त गण क्रमशः 1. छोटू उर्फ जगदीश पुत्र सियाराम 2. अरुण पुत्र वीरेन्द्र को थाना पनवाड़ी अन्तर्गत नेकपुरा मोड से स्योढ़ी गांव की ओर जाने वाली नहर पट्टी ग्राम नेकपुरा से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर व 05 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुए, गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हाजा पर क्रमशः मु0अ0सं0 118/2021 तथा मु.अ.सं. 119/2021 धारा 3/25 A ACT पंजीकृत करते हुये आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. 30नि0 तनवीर अहमद प्रभारी चौकी नगराघाट थाना पनवाड़ी
2. का. प्रभात कुमार 3. का. ओमप्रकाश शर्मा
4. का. राघवेन्द्र कुमार थाना पनवाड़ी जिला महोबा

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण व बरामदगी...

1. छोटू उर्फ जगदीश पुत्र सियाराम निवासी ग्राम अकबराबाद थाना मूसानगर जिला कानपुर देहात बरामदगी - 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज।
2. अरुण पुत्र वीरेन्द्र निवासी फकरापुर थाना सट्टी जिला कानपुर देहात बरामदगी - 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 09.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



कोविड-19 से जान गवाने वाले कोरोना वारियर्स/लोगों की आत्मशान्ति हेतु मौन रखकर दी गयी विनम्र श्रद्धांजलि...

आज दिनांक 09.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में कोविड- 19 से बचाव हेतु जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए वैश्विक महामारी कोविड-19 से जान गवाने वाले फ्रन्टलाइन वर्कर्स/लोगों की याद में 02 मिनट का मौन रखकर विनम्र श्रद्धांजलि दी गयी और जो अभी भी इस महामारी से लड़ रहे हैं उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की गयी।

पुलिस अधीक्षक द्वारा लोगों को कोरोना से बचाव हेतु शासन द्वारा जारी गाइडलाइन पालन करने जिसमें मास्क लगाने, शोसल डिस्टेंसिंग बनाये रखने, हाथों को समय-समय पर सैनेटाइज करने हेतु निर्देशित किया गया, इस अवसर पर पुलिस कार्यालय महोबा में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 09.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कबरई पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.06.2021 को थानाध्यक्ष कबरई दिनेश कुमार सिंह द्वारा गठित टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 173/21 धारा 379 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम व 3/5 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम मे वांछित चल रहे अभियुक्त बब्लू पुत्र रामकिशन उम्र करीब 19 वर्ष को थाना कबरई अन्तर्गत बरबई तिराहे से गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 सुमित नारायण तिवारी
2. कां0 शिवम कुमार

गिरफ्तारी का स्थान:-

बरबई तिराहे के पास थाना कबरई जिला महोबा

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरण...

बब्लू पुत्र रामकिशन उम्र करीब 19 वर्ष निवासी खुडा का पुरवा जमालपुर थाना कोतवाली देहात जिला बांदा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 09.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस द्वारा पैदल गस्त के दौरान की संदिग्धों की चेकिंग एवं लोगो को कोरोना संक्रमण के प्रति किया जागरूक



आज दिनांक 09.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद के समस्त थानों द्वारा पैदल गस्त करके क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक स्थल आदि जगहों पर संदिग्धों की चेकिंग की गई एवं आमजन को कोरोना संक्रमण के प्रति ढिलाई न बरतने व मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग आदि नियमों का पालन करने की अपील की गई।

प्रभारी महिला पुलिस चौकी उ0नि0 नीलम यादव मय फोर्स के कस्बा चरखारी में पैदल गस्त के दौरान बालिकाओं/महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें भी कोरोना संक्रमण से बताव के तरीके बताये गये।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **35 ई-चालान व** कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर **31 व्यक्तियों से 4500/-रु0 शुल्क वसूला गया।**

